



दिनांक:- 04.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



**आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिये जनपद महोबा में नामांकन के अन्तिम दिवस के अवसर पर सुरक्षा के दृष्टिगत मुस्तैद रही खाकी...
DM/SP तथा ADM/ASP ने सुरक्षा के दृष्टिगत नामांकन स्थल में कानून व्यवस्था बनाये रखने के दिये सख्त निर्देश...।**

आज दिनांक 04.04.2021 को जनपद महोबा में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये नामांकन प्रक्रिया का अन्तिम दिन है जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोबा श्री सत्येन्द्र कुमार व पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा नामांकन केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ड्यूटी में लगे अधि0/कर्मचारियों को कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के सख्त निर्देश दिये गये हैं, जिसके क्रम में नामांकन के अन्तिम दिवस के अवसर पर सुरक्षा के मद्देनजर जनपदीय पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण पूरी मुस्तैदी से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कार्य कर रहे हैं।

मालूम हो कि जनपद महोबा में आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत प्रथम चरण में नामांकन की प्रक्रिया दिनांक 03/04.04.2021 को सम्पन्न करायी जानी है, जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस व प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, नामांकन में आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जायेगा जो अनुपालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान नामांकन स्थल पूरी तरह से नाकाबन्दी रहेगी चारों तरफ से बैरियर व बैरिकेडिंग कर सम्पूर्ण परिसर को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है, मुख्य गेट पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गयी है जहां महिला पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगायी गयी है जिससे महिला प्रत्याशियों की भी चेकिंग कराई जा सके सघन चेकिंग के बाद ही प्रत्याशी व उनके आवेदकों को प्रवेश दिया जा रहा है।

बता दें कि नामांकन का कार्य 4 अप्रैल शाम 5 बजे तक होगा, 5 और 6 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी, 7 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 3 बजे तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है, 7 अप्रैल को ही अपराह्न 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक प्रतीक आवंटन का कार्य सम्पन्न किया जाएगा। 14 अप्रैल को प्रत्येक विकासखण्ड परिसर से पोलिंग पार्टियां खाना होंगी तथा 15 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।





दिनांक:- 04.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



“परिवार परामर्श केन्द्र”

कमेटी ने 03 परिवारों को बिखरने से बचाया..

आज दिनांक 04.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय की अध्यक्षता में पुलिस लाइन अवस्थित सभागार कक्ष में “परिवार परामर्श केन्द्र” कार्यक्रम समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 06 मामलो को सुना गया। जिसमें परिवार परामर्श के सदस्यों के सूझबूझ से पति-पत्नी के मध्य आपसी मनमुटाव व कलह को दूर करते हुये 03 परिवारों का आपसी समझौता कराकर खुशी-खुशी वापस घर भेजा गया एवं 03 मामलो में अगली तारीख दी गई है।



इस दौरान नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह, उ0नि0 शिल्पी शुक्ला, म0आ0 शान्ती देवी, म0आ0 चांदनी वर्मा, म0आ0 प्रीती, प्रधानाचार्य GGIC श्रीमती सरगम खरे, समाजसेविका श्रीमती अंशु शिवहरे, सुश्री नेहा चन्सौरिया, समाजसेवी श्री शिव कुमार गोस्वामी, श्री शरद तिवारी आदि सदस्यगणों की मौजूदगी रही।

निस्तारित किये गये कुल 03 मामलों का विवरण:-

1. श्रीमती आरती पत्नी बारेलाल कुशवाहा।
2. श्रीमती माया देवी पत्नी बृजेन्द्र उर्फ सोनी।
3. नन्दू पुत्र श्रीपत नि0 सुभाषनगर थाना कोतवाली महोबा। (पिता-पुत्र का घरेलू विवाद)





दिनांक:- 04.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



एण्टी रोमियो स्कॉड ने क्षेत्र में भ्रमण कर संदिग्ध/असामाजिक तत्वों से की पूछताछ...।

आज दिनांक 04.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में महिलाओं व बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और अधिक सुदृढ किये जाने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर गठित एण्टीरोमियो स्कॉड सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रहे हैं, जिसके क्रम में उ0नि0 शिल्पी शुक्ला मय टीम जिसमें महिला कांस्टेबल चांदनी और महिला कॉन्स्टेबल प्रीति पटेल द्वारा बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल, प्रमुख चौराहों में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया एवं आवश्यक हेल्पलाइन नंबर से अवगत कराया गया।

इसी क्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में वार्ता की गयी और उनको सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। इस दौरान बिना कारण घूमने वाले लड़कों/शोहदों से पूछताछ की गयी व अनावश्यक रूप से घूम रहे युवकों को चेतावनी देकर छोड़ा गया।

बता दें कि दिनांक 03.04.2021 को महिला रिपोर्टिंग चौकी चरखारी जनपद महोबा द्वारा भी कोचिंग से आते छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर के बारे में व कोविड-19 महामारी के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई।





दिनांक:- 04.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस की संयुक्त टीम ने 02 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...



जनपद में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र एवं अपराधिक घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने के क्रम में संदिग्धों की चेकिंग कर शांति अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण पर निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 04.04.2021 को थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित संयुक्त टीम द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्त सम्बन्धित क्रमशः 1. मु०अ०सं० 120/2021 धारा 304/323/504 भादवि से संबन्धित वांछित अभियुक्त भागबली पुत्र कालीदीन उम्र 52 वर्ष को व 2. मु०अ०सं० 121/2021 धारा 307/504 भादवि से संबन्धित वांछित छत्रपाल पुत्र जगपाल सिंह उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुये अभियुक्तों को मां० न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्तों का विवरण..।

1. भागबली पुत्र कालीदीन उम्र 52 वर्ष नि० यादव खोडा धरौन थाना कबरई, महोबा
2. छत्रपाल पुत्र जगपाल सिंह उम्र 40 वर्ष नि०मु० सुभाष नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस की संयुक्त टीम का विवरण...।

- (प्रथम टीम) 1.उ० नि० महेन्द्र सिंह तोमर 2. हे०कां० राजेश कुमार
(प्रथम टीम) 1. उ० नि० महेन्द्र सिंह तोमर 2. का० श्यामू कुमार 3.का० दीपक मौर्य



दिनांक:- 04.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



30 लीटर अवैध शराब सहित अभियुक्त को महोबकण्ठ पुलिस ने किया गिरफ्तार



आज दिनांक 04.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत थानाध्यक्ष महोबकण्ठ श्री लाखन सिंह द्वारा गठित टीम ने **30 लीटर अवैध शराब देशी महुआ** के साथ अभियुक्त मुन्ना लाल पुत्र गोटीराम उम्र करीब 47 वर्ष नि0ग्राम गाडौ थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया । जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर **मु0अ0सं0 42/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत** कर विधिक कार्यवाही की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

मुन्ना लाल पुत्र गोटीराम उम्र करीब 47 वर्ष नि0ग्राम गाडौ थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री छेदी लाल
2. हे0का0 दिनेश सिंह



दिनांक:- 04.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी नगर एवं चरखारी द्वारा पंचायत चुनाव के मद्देनजर पैदल गस्त के दौरान शराब की दुकानों को किया गया चेक

गस्त के दौरान जनपदीय पुलिस द्वारा मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, ढाबा आदि की सघन चेकिंग की गई। साथ ही लोगों को बढ़ते कोविड-19 के प्रति जागरूक भी किया गया एवं यातायात नियमों के तहत 45 ई-चालान भी किये गये।



आज दिनांक 04.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में आगामी त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, सीओ चरखारी श्री उमेश चन्द्र मय पुलिस बल के सर्किल के थाना क्षेत्रों में पैदल गस्त के दौरान स्थित शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं उनके क्यू-आर कोड को स्कैन व चेक किया गया, साथ ही सेल्समैन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। पैदल





दिनांक:- 04.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



GOOD MORNING MAHOBA

दिनांक 04.04.2021


MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



जनपदीय पुलिस की गुड़ मार्निंग टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में सुबह कि सैर करके ग्रामीण क्षेत्र के लोगो से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना तथा स्कूली बच्चों से मिलकर आगामी माह में होने वाली बोर्ड परीक्षा से संबंधित

महत्वपूर्ण टिप्स दिये ।

चलो दुखों को भुलाकर एक बार फिर जीते हैं, कब तक ऐसे जियेंगे?

चलो आज ज़िन्दगी की शुरुआत एक मुस्कुराहट के साथ करते हैं। सुप्रभात।

